CIN No. : L26943RJ1979PLC001935

Phone : 01462 228101-6
Toll Free : 1800 180 6003 / 6004
Fax : 01462 228117 / 228119
E-Mail : shreebwr@shreecement.com
Website : www.shreecement.com



SHREE CEMENT LTD.

An ISO 9001, 14001, 50001 & OHS 18001 Certified Company

Regd. Office:

BANGUR NAGAR, POST BOX NO.33, BEAWAR 305901, RAJASTHAN, INDIA

SCL/BWR/SE/2024-25/ 13th July, 2024

National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East) MUMBAI – 400 051

SCRIP CODE: SHREECEM EQ

Debt Segment NCD ISIN: INE070A07061

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, MUMBAI – 400 001

SCRIP CODE 500387

Debt Segment NCD ISIN: INE070A07061

Re:- Newspaper Advertisement for 45th Annual General Meeting and Information of remote e-voting

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement published in English "Business Standard" and in Hindi in "Dainik Navajyoti" newspapers on 13th July, 2024 regarding the Notice of the 45th Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, 6th August, 2024 at "Rangmanch Auditorium", Bangur Nagar, Beawar - 305 901 (Rajasthan) at 11:30 A.M. (IST).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SHREE CEMENT LIMITED**

(S.S. KHANDELWAL)
COMPANY SECRETARY

JAIPUR OFFICE: SB-187, Bapu Nagar, Opp. Rajasthan University, JLN Marg, Jaipur 302015

Phone: 0141 4241200, 4241204, Fax: 0141 4241219

NEW DELHI OFFICE: 122-123, Hans Bhawan, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110002

Phone: 011 23370828, 23379218, 23370776, Fax: 011 23370499

CORP. OFFICE: 21, Strand Road, Kolkata 700001 Phone: 033 22309601-4 Fax: 033 22434226

Low valuation and robust pipeline may fuel TCS rally

New Delhi, 12 July

shares of Tata Consultancy Services (TCS) zoomed over 6 per cent to ₹4,182 a piece on the BSE on Friday. This came after the IT services major reported an 8.7 per cent year-on-year (Y-o-Y) increase in its net profits to ₹12.040 crore in the April-June quarter of financial year 2024-25 (Q1FY25). However, sequentially, the profit dipped by 3.1 per cent.

Revenues soared 5.4 per cent Y-o-Y and 2.2 per cent sequentially to ₹62,613 crore. The topline and the bottomline marginally defeated Bloomberg estimates which had estimated revenue to be at ₹62,128 crore and profit at ₹11,959 crore.


According to brokerages, the revenue growth was broad based, with almost every vertical reporting sequential growth. BFSI and retail recovered smartly while manufacturing, healthcare and energy continued their growth momentum.

Despite broad-based revenue growth, deal wins in the quarter remained modest dragged by spillover of few deals to next quarter, analysts said. TCS signed \$8.3 billion total contract value (TCV) during the quarter, slipping 18.6 per cent Y-o-Y and 37 per cent sequentially. In sustainability of the momentum due Q4FY24, TCS had signed TCVs worth \$13.2 billion.

TCS continues to see a strong pipeline even as clients behind and reckon the strong deal continue to re-prioritise spends on cost-takeout deals, they said.

According to those at Jefferies, TCS saw acceleration across verticals except communication and retail. Key positives from the results were the return to growth of BFSI and Hitech vertical as well as North America region — which analysts see as signs of improvement in the margins. With manufacturing and life Sciences continuing to grow as well.

We see the return to growth of its key verticals and net hiring at a seven-quarter high as emerging signs of revival. We raise our revenue estimates but tweak our EPS slightly and expect 7 per cent and 10 per cent



CAGR in cc revenues and EPS, respectively over FY24-27. TCS offers value relative to Nifty as its current PE premium of 29 per cent is 1-std below its 5-year average. PE premium of 39 per cent. We upgrade to 'Buy' with revised target price of ₹4.615 based on 29x PE," analysts at Jefferies wrote in a report.

Analysts at Nuvama Research also remained positive and reckoned that TCS management sounded upbeat expecting recovery in the US-BFSI segment and bottoming out of the retail vertical. The management. however, held back from guiding for to uncertain macro.

"We maintain that the earnings downgrade cycle for the sector is wins of the last few quarters, shall gradually convert into revenue in coming quarters, even as US macro becomes favourable. We see TCS as a perfect large-cap proxy to play this upcycle, with its strong deal wins and robust margin performance," Vibhor Singhal, Nikhil Choudhary, and Yukti Khemani of Nuvama wrote in a report.

Global brokerages also mostly raised their target prices for TCS and largely gave a 'Buy' rating to the stock. Japanese brokerage firm Nomura remained 'Neutral' on the company, while raising the target price to ₹3,860 per share. Others such as CLSA, UBS maintained 'Buy' on

the stocks with raised target prices of ₹4,007 per piece and ₹4,600 per share respectively. On the other hand, JP Morgan maintained its 'Overweight' rating on the company, raising its target price to ₹4.600 per share with a 'Positive' outlook.

Despite the upward projections, broad-based revenue growth, healthy deal wins, and strong pipeline not all are convinced about the TCS led revival of the sector. As some analysts say that management's refrain from commenting on growth sustainability, signals the near-term volatility in demand led by weakness in discretionary spending and unabated pressure of pauses in projects by clients amid macro uncertainty. Considering the above factors, analysts at the domestic brokerage firm Emkay, gave a 'Reduce' rating on TCS, with target price of ₹3,950 per share.

Those at Kotak Institutional Equities also hinted at uncertainty and said that the muted TCV and growth in key market segments indicate things are not rosy yet. Discretionary demand is improving in the US banking segment, but overall demand has not improved.

However, the brokerage said that it is interesting to note that the valuations of Tier one peers have converged towards TCS, despite the more consistent growth and better return on invested capital (RoIC) profile of the latter.



Conservative Hybrid Funds: Earn fixed deposit-plus return

When the stock market is on a relentless bull run, many investors, especially conservative ones with low risk appetite, seek safety. One option for such investors is conservative hybrid schemes.

Thev are open-ended schemes that invest between 10 and 25 per cent of their assets in equities and the rest in bonds. This asset allocation gives investors a small exposure to stocks in a predominantly bond portfolio, making them less volatile.

"The higher debt allocation provides stability while the equity exposure can enhance the overall return," says Ravi Kumar T V, founder, Gaining Ground Investment.

These schemes typically invest in high-quality bonds and government securities, while some invest in long-duration bonds, taking on interest-rate risk. In most cases, the equity portfolios are tilted in favour of largecap stocks. Though most allocate around 20-25 per cent to stocks, some have reduced the exposure to 10-12 per cent, resulting in varied returns.

Stable returns

1-year

3-year

5-year

10-vear

These schemes can work for investors seeking returns above those offered by fixed deposits

HIGH SINGLE-DIGIT

RETURN OVER LONG TERM

Above one-year returns are compound annualised Source: Navigation RA

Period Category average return (%)

(FDs) over the medium term. "Investors seeking a little higher returns than pure debt funds while taking a little more risk may consider these funds.' savs Abhishek Bisen, head, fixed income, Kotak Mahindra Asset Management Company.

"These funds offer a diversification alternative to investors wanting to increase the return potential of their savings, assuming they have a predominantly fixed-income portfolio," says Prashant Pimple, chief investment officer, fixed income, Baroda BNP Paribas Mutual Fund.

Good in falling rate scenario

Given their high exposure to debt, a falling interest-rate scenario can lead to higher returns. "These funds benefit from falling interest rates because bond prices tend to rise, leading to capital gains. If we expect rates to fall over the next year, one can consider

investing," says Kumar.

However, investors in these schemes should focus primarily on maintaining relatively low

The downside

While building a less risky debtoriented portfolio is a sound strategy, it may not be attractive in a bull market to those seeking high returns. "The conservative nature limits the allocation to equity, potentially capping the upside during bullish market phases," says Bisen.

Investors in these funds should be prepared for some volatility. "Though the funds would, by design, have a lower return potential than equity funds, they would be subject to higher volatility than fixedincome funds due to the equity exposure," says Pimple.

Bisen adds that the 25 per cent equity allocation can add volatility in turbulent markets.

For those in lower tax slabs

Since gains in these schemes are taxed at the investor's slab level, they may not appeal to those in higher income tax brackets.

"For individuals in lower tax brackets, conservative hybrid funds can be a compelling investment choice. They can be a more tax-efficient alternative to fixed deposits and provide greater flexibility in managing investments," says Kumar.

One may invest lump sum amounts in these schemes. "The ideal holding period should be at least three years, given the equity exposure," says Pimple.

Things to know when filing ITR as a pensioner

If you've recently retired or are retiring soon, it is essential to understand how to file incometax return (ITR) as a pensioner. The deadline to file your ITR for financial year 2023-24 without a late fee is July 31.

Read full report here: mybs.in/2dXNgPH

WHY FILE ITR?

Under the I-T Act, pensions are classified as "Income from Salaries". If your pension exceeds the exemption limit, you must file an ITR. Pensioners typically use ITR-1 (Sahaj) form for both online and offline filing.

CLAIMING DEDUCTIONS

Under the old tax regime, pensioners can claim deductions under sections like 80C (investments in PPF, NSC, etc), 80D (health insurance), and 80TTB (interest income from deposits).

TAX BENEFITS FOR SENIOR CITIZENS

- Higher exemption limit
- Standard deduction ■ Rebate under Section 87A
- Medical insurance premium
- Deduction on medical expenses for specified diseases
- Interest income deduction ■ Exemption from advance tax payment
- Capital gains tax exemption under reverse mortgage scheme

COMPILED BY SURBHI GLORIA SINGH

(ii) IDBI bank

Baghpat, Old Monica Theatre, Meerut Road. Baghpat& 250609, Uttar Pradesh

Regional office- Delhi Road, Majhola Chowk Opp. Dharamkanta, Moradabad- 244001, Uttar Pradesh SALE NOTICE

PUBLIC NOTICE/ SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets Under The Securitisation and Reconstruction of Financial assets and enforcement of Security interest act, 2002 read with provise

to rule 8(6) of the Security Interest (enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the IDBI Bank, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of IDBI Bank will be sold on "As is Where is". As is What is" and Whatever there is" on 29.07.2024. for recovery of Rs. 21.90 Lakhs plus interest and expenses as mentioned in table below due to IDBI Bank from (a) **Ikramuddin (Borrower) (b) Sanjeev Kumar S/o Gajiraj Singh (Guarantor and Mortgagor)**. The reserve price will be **Rs. 19.00 lakhs** and the earnest money deposit will be **Rs. 1.90 Lakhs**. The details of the Borrower(s), Mortgagor(s) and Guarantor (s) amount due, reserve price and earnest money deposit

an	and brief description of the immovable property with known encumbrances, if any is as mentioned in the table below :-					
So. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/Guarantor/	Description of the Immovable	Outstanding amount mentioned	Date and Time	A. Reserve Price	Name of Contact No. of Authorised Officer
No.	Mortgagor	Secured Assets	as per Demand notice	of E-auction	B. EMD	Nodal Officers
1.		All that piece and parcel of land comprised in and forming part of a residential plot No. 131, Part of Khasra No.112	Rs. 21.90 Lakhs as on 03.12.2019 together with further interest	29.07.2024 From 11:00 am	Rs. 19 Lakhs	Shri Raghav
	Gwali, Khera District Baghpat	mi, measuring 83.61 sq. mt., situated at Ashok Vihar	thereon with effect from 03.12.2019 plus		Rs. 1.90 Lakhs	Saxena 7722006872
		Extension (Radhey Shyam Park), Village Loni, Pargana				Shri Abhi Kaushik
		/Tehsil Loni, District Ghaziabad (presently known as Pooja Colony, Loni, Ghaziabad) which is bounded as follows:			Incremental	8941927777
		On the East By: Rasta 20-0 wide, On the West By: Rasta			Bidding- Rs. 10.000/-	Shri Jitender Singh Nimi
	Baghpat- Uttar Pradesh-250611.	10-0 wide, On the South By: Plot of Rajkumar S/o Bhopal			NS. 10,000/-	9634234576
		and House of Sanjay, On the North By: House of Baturam				
L		S/o Balwant Singh.				
		46				

Together with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth

Last date of deposit of EMD- 28.07.2024 by 6:00 p.m.,

Date & time of inspection of property- 26.07.2024 from 11:00 a.m. to 4:00 pm,
Details of account in which EMD is to be deposited through RTGS/NEFT & IFSC Code-152834915010026 (RR Receipt Pending for Appropriation account), IFSC- IBKL0001528

BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: (1) The sale is strictly subject to the terms & conditions given in this advertisement and in the "BID Document" Bid document can be obtained from any of our offices, on all working days or download from IDBI's website i.e. www.idbi.com and also at https://www.bankeauctions.com (2) The sale would be on e-Auction platform at Website https://www.bankeauctions.com through E-auction service provider Mithalesh Kumar-Assistant Manager, C1 India Pvt. Ltd., www.c1india.com, plot no 68, 3rd floor , Sector-44 Gurgaon-122003, Haryana, Email-mithalesh.kumar@ctindia.com, Mobile no-+917080804466, Direct- 0124-4302000, (3) The Authorized Officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone/ cancel the auction at anytime without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final. (4) The Earnest Money Deposit (EMD) will not carry interest. (5) The successful bidders will be required to deposit 25% of the sale price (less the amount of EMD deposit) at the time of confirmation of sale. The balance amount of the sale price is to be paid within 15 days of the confirmation of the sale or such extended period as may be agreed to by the AO. In case of failure to deposit the balance amount within the prescribed period, the deposited amount shall be forfeited, including earnest money. (6) In case of default in depositing the 25% bid amount immediately or balance 75% of the bid amount within the prescribed period, the amount already deposited will be forfeited and secured assets will be resold. (7) All statutory dues/ attendant charges/ other dues including registration charges, stamp duty, taxes extra shall be borne by the Purchaser. For further details and complete Term and Conditions, please visit www.idbi.com and/or contact the Nodal Officers/Authorized Officers mentioned above against each property The Borrowers & Guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-auction failing which the property will be

auctioned/sold and balances dues, if any, will be recovered with interest and costs. Please note that if amount of dues together with all costs, charges and expenses paid by the Borrower at any time upto expiry of 15 days from the date of publication of this notice then this proposed sale

stand to be cancelled and thereupon bid documents received from the prospective bidders to be returned to them together with their EMD amounts without any interest in due course

Authorized Officer, IDBI Bank Date - 12.07.2024 Place - Baghpat

(ii) IDBI BANK

Hall No. H-2, Gr Floor, Padamdeep Tower G-10/8, Sanjay Place Agra Uttra Pradesh Pin: 282002

Regional office- Delhi Road, Majhola Chowle Opp. Dharamkanta, Moradabad- 244001, Uttar Pradesh

SALE NOTICE

Place: Gurugram

PUBLIC NOTICE/ SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets Under The Securitisation and Reconstruction of Financial assets and enforcement of Security interest act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the IDBI Bank, the

physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of IDBI Bank will be sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is " on 29.07.2024, for recovery of Rs. 1,30,63,305.01 plus interest and expenses as mentioned in table below due to IDBI Bank from (i) M/s Ram Murty Sharma Proprietor Ram Murty Sharma (ii) M/s Priya Creation Proprietor Yogesh Kumar (iii) Mr. Mukesh Joshi (Mortgagor/Guarantor) and (iv) Mr. Ram Murty Sharma (Borrower/Mortgagor/Guarantor). The reserve price will be Rs. 1,41,93,500/- and the earnest money deposit will be Rs. 14,19,350/-. The details of the Borrower(s), Mortgagor(s) and Guarantor(s) amount due, reserve price and earnest money deposit and brief description of the immovable property with known encumbrances, if any is as mentioned in the table below:

N	o. o.	Co-Borrower/Guarantor/Mortgagor	Secured Assets	as per Demand notice	of E-auction	B. EMD	of Authorised Officer/ Nodal Officers
	2.	M/s Priya Creation (a) Mr.Yogesh Kumar S/o Deena Nath Joshi (Proprietor/ Borrower), R/o 43 R/A, 57-58 Raj Nagar 1st Behind Parswanath Prerna Colony Fathehabad Road, Agra, UP-282001. (b) Mr. Ram Murty Sharma S/o Ram Bharosey (Proprietor/ Borrower/Mortgagor), R/o B-502,	land admeasuring 0.3278 hectare out of 1.6390 hectare comprised in and forming part of Khasra No. 375 situated at: Mauza Gutila within the Registration Sub-District Agra and District Agra (UP). Bounded: On the North by: Remaining portion of Khasra no. 375 of the others, On the South by: Government Road.	Twenty Six Thousand, Five Hundred Three Only) towards the outstanding dues in respect of the Loans as on 01-04-2021, together with further interest thereon with effect from 01-06-2021 plus applicable expenses (less recovery, if any) Rs. 67,36,802/- (Rupees Sixty Seven Lakh, Thirty Six Thousand, Eight Hundred Two Only) towards the outstanding dues in respect of the Loans as on 31-12-2021, together with further interest thereon with effect from 02-04-2022 plus applicable expenses (less recovery, if any)	29.07.2024 From 11:00 am -12 Noon	Rs. 1,41,93,500/- Rs. 14,19,350/- Incremental Bidding- Rs. 10,000/-	Shukla
- 1-	T00	esthor with all buildings and atmestures thereon and all plant or	d machines, attached to the com	th ar narmanantly factored to anything attach	ad to the couth		

Together with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth

Last date of deposit of EMD- 26 07 2024 by 5:00 p.m.

Date & time of inspection of property- 22.07.2024 from 11:00 a.m. to 4:00 pm Details of account in which EMD is to be deposited through RTGS/NEFT & IFSC Code-08034915010026 (RR Receipt Pending for Appropriation account), IFSC- IBKL0000080

BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: (1) The sale is strictly subject to the terms & conditions given in this advertisement and in the "BID Document" Bid document can be obtained from any of our offices, on all working days or download from IDBI's website i.e. www.idbi.com and also at https://www.bankeauctions.com (2) The sale would be on e-Auction platform at Website- https://www.bankeauctions.com through E-auction service provider Mithalesh Kumar- Assistant Manager, C1 India Pvt. Ltd., www.c1india.com, plot no 68, 3rd floor, Sector- 44 Gurgaon-122003, Haryana, Email-mithalesh.kumar@c1india.com, Mobile no-+917080804466, Direct-0124-4302000. (3) The Authorized Officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone/ cancel the auction at anytime without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final. (4) The Earnest Money Deposit (EMD) will not carry interest. (5) The successful bidders will be required to deposit 25% of the sale price (less the amount of EMD deposit) at the time of confirmation of sale. The balance amount of the sale price is to be paid within 15 days of the confirmation of the sale or such extended period as may be agreed to by the AO. In case of failure to deposit the balance amount within the prescribed period, the deposited amount shall be forfeited, including earnest money. (6) In case of default in depositing the 25% bid amount immediately or balance 75% of the bid amount within the prescribed period, the amount already deposited will be forfeited and secured assets will be resold. (7) All statutory dues/ attendant charges/ other dues including registration charges, stamp duty, taxes extra shall be borne by the Purchaser. For further details and complete Term and Conditions, please visit www.ldbi.com and/or contact the Nodal Officers/Authorized Officers mentioned above against each property.
The Borrowers & Guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-auction failing which the property will

be auctioned/sold and balances dues, if any, will be recovered with interest and costs Please note that if amount of dues together with all costs, charges and expenses paid by the Borrower at any time upto expiry of 15 days from the date of publication of this notice then this proposed

sale stand to be cancelled and thereupon bid documents received from the prospective bidders to be returned to them together with their EMD amounts without any interest in due course Date - 12.07.2024 Place - Agra

Authorized Officer, IDBI Bank

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office: Bangur Nagar, Beawar-305 901, (Rajasthan) | Phone: EPABX +91-1462-228101-6

Fax: +91-1462-228117/119 | E-Mail: share@shreecement.com | Website: www.shreecement.com CIN: L26943RJ1979PLC001935

NOTICE OF THE 45[™] ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

NOTICE is hereby given that the 45th Annual General Meeting of the Members of the Company (45th AGM) will be held on Tuesday, 6th August, 2024 at the Registered office of the Company at "Rangmanch Auditorium", Bangur Nagar, Beawar - 305 901 (Rajasthan) at 11:30 A.M. (IST) to transact the Business as set out in the Notice

The Notice of the 45th AGM, Integrated Annual Report and Attendance Slip for the Financial Year 2023-24 have been sent through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company's RTA/ Depository Participant(s), unless any Member has requested for a physical copy of the same. For Members no nave not registered their e-mail address, physical copies have been sent by the permitted mode. The Notice of 45th AGM, Integrated Annual Report and Attendance Slip for the Financial Year 2023-24 is available and can be downloaded from Company's website https://www.shreecement.com/uploads/investors/Annual Report _2023_24.pdf, National Securities Depository Limited ("NSDL") website https://www.evoting.nsdl.com and websites of the Stock Exchanges (BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com).

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the 45th AGM using remote e-voting facility (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by NSDL

The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or through polling papers at the meeting) shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 30th July,

The remote e-voting period will commence on Friday, 2nd August, 2024 from 9.00 A.M. (IST) and will end on Monday, 5th August, 2024 at 5.00 P.M. (IST). During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The facility for voting, through polling paper shall be made available at the venue of the 45th AGM. The Members attending the meeting, who have not cast their vote through remote e-voting, shall be able to exercise their voting rights at the meeting through polling paper. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the 45th AGM but shall not be entitled to change or cast their vote again at the AGM.

Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting, and holds shares as of cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing login ID and password can be used for casting of vote.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the 45th AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-1020-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of grievances connected with facility for remote e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, evoting@nsdl.com, Tel: 022-48867000.

The Company has fixed Tuesday, 23rd July, 2024 as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend for the financial year ended 31st March, 2024, if approved at the 45th AGM. The final dividend, as recommended by the Board, if approved at the Annual General Meeting will be paid on or after Wednesday,

7th August, 2024 to those Members: (i) whose names appear as Beneficial Owners in the list of Beneficial Owners on Tuesday, 23rd July, 2024 as furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose; and

(ii) whose names appear as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz. Link Intime India Private Limited on or before Tuesday, 23rd July, 2024.

> By order of the Board For Shree Cement Limited

S.S. Khandelwal Company Secretary







द्रसरे दिन भी टेबल-कुर्सियां जब्त

ज्ञान हैं।

जी- कार्य के अनुसार वृधवार राहि को अलामवु निवासी बसी कारुबेलिया
के बाड़े में से चौर दो बकारियां चुराने के बाद पुराना कार्देड़ा निवासी जगदीश
चौहान के बाड़े में से खह बकारियां चुराकर ले गए। बकारियां चौरी होने की
जानकारी गुरुवार सुखह मिलने पर पीहातों ने अपने स्तर पर रालशा करने के
बाद पुलिस को अवगत कराया। मेहरूकला मार्ग स्थित फंजर बस्ती से भी
पिछले हिनों चौर 200 फोट विद्युत केबल लड़न भी चुरा कर ले गए। कस्बे
में आए दिन हो रही छोटी-मोटी चौरियों की रोकथाम के लिए केकड़ी पुलिस
से मांग की।

दीनिए अपनी आँखों

को कुदरती आई मंत्रा



-पालिकाकर्मियों की टीम ने पुलिस बल के साथ कपालेश्वर तिराहे से कार्रवाई

हटाने की कार्यवाही की।रामधाम तिराहे से ही अधिकांश दुकानदारों ने सामान अपनी सीमा तक ही लगा रखा था।

उन्नत बीज ही कृषि का मूल आधार

का जाय के न्यून एन का वाना, व्यरणस्थार नियमें आया की आनकारी वी पूर्व सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओहा ने जीवक खेती, उत्पादन बढ़ाने के 21 मूल मंत्र, निराई गुड़ाई के लाग, वर्षी कम्मोस्ट खाद, सुअप कम्मोस्ट खाद निर्माण विधि, उन्तत प्रमाणित बीज को ही खेती का मूल त्या बताया। साथ ही खरीफ फसल में होने वाली खरपतवार को निकालने से होनो वाले लाभ से भी अवगत करावा औद्यान ने महिला कुगकों को खेती के प्रति दिवेश जागरकता रखने पर बल दिया। कृषि परवेशक मारेश कुमार वादव ने विभाग द्वारा देय खेत तलाई, बूंद बूंद सिंचाई,फटवारा, कृषि यंत्रों पर विभाग द्वारा अनुतान के बारे में जानकारी दी। अंत में ज्ञाना देरस्ट में प्रसम्, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाली महिलाओ को पारिताषिक दिया गया।

हाई सक्यागरा जल में ानरूद्ध हाडकार अपराधी, गैंगस्टर तथा अति पूरक्षा वाले बदियों के संबंध में गत सोमवार को राजधानी स्थित जेल मुख्यालय में उच्च स्तरीय कमेटी की विशेष बैठक हुई। इसमें उच्च न्यावालय के ओदशार कुछहाईकोर अपराधियों के प्रकरणां की समीक्षा की हा बैठक हों ख्यान्टिक्यक एक्स्य त्रेकर गई। बैठक में महानिदेशक पुलिस (जेल) राजेश निर्वाण, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) वी.के. सिंह, महानिरीक्षक जेल विक्रम सिंह तथा हाई

अजमेर। अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूघरा स्थित राज्य की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में निरूद्ध हार्डकोर

www.drorthooil.com

Available at all Medical & General Stores

बाडे में बंधी आट बकरियां चुरा कर ले गए चोर

ग्रामीणों में दहशत व्याप्त, पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार

न्युज सर्विस/नवज्योति, कादेश कस्त्रे में बुधवार राति को एक ही रात में चोरों ने पुपना कादेश निवासी जगदीश चीहान एव अलग्ब निवासी बशी कालबेलिया के बाड़े में खुटे से बंधी हुई बकरियां चुरा कर ले गए। आए दिन चोरियों से ग्रामीणों में दहशत व्याप है।

पुष्कर। दुकानों के बाहर से जब्त किया गया सामान।

के साथ कपालेश्यर तिराहे से कार्रवाई पूरू करते हुए दुकानों के बाहर रखी टेबर्ल, कुर्सियां व हाथ टेला जब्त करना शुरू किया वहीं दुकानों के बाहर लगा रखे गमी से जवाव के लिए लगा रखे तिरमाल को भी हटवाया। दुकानदार है हरूका विरोध भी किया। टीम ने मुख्य बाजार होते हुए रामधाम तिरावे तक अतिक्रमण

Clinically Tested*

हटान का काववाहां का। रामधामा तरहार के भास फुटपाथ पर दुकानदारों हाता कर रखें अस्थाई अतिक्रमण को स्वयं के स्तर पर हटाने के लिए सख्त हिदायत भी दी। बताया गया है कि कार्यवाही अभी भी लगाता जारी रहेगी हालांकि, गुरुवार को पालिका हारा की गई कार्यवाही के चलते गुक्रवार को सुबह

जोतायां। कृषि पर्यवेशक वेद जोताया द्वारा महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन सहायक कृषि अधिकारी महेंद्र कुमार बैरवा के निर्देशन मे आयोजित किया गया। कृषि पर्यवेशक महेश कुमार यादव ने बताया कि विभागीय आदेशानुसार



जरा भेरुखेडा में महिला प्रशिक्षण में जानकारी देते अधिकारी।-एस. अ

भेरुखेड़ा मजरा में 30 महिला कृषकों को उन्नत बीज उत्पादन, पानी मिट्टी की जांच के नमूने लेने की विधि, खरपतवार नियंत्रण आदि की जानकारी

हार्डकोर कैदियों के स्थानान्तरण को लेकर हुई उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक

आँखों का सूखापन, आँखों पर दबाव कर्म कर उन्हें स्वस्थ व शीतल रखने में सहायक है। आयुर्वेदिक होने के कारण यह पूर्ण स्वदेशी सुरक्षित है एवं इसका आँखों पर कोई पूर्ण आयुर्वेदिक दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता।

12 गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियों जैसे

गुलाब, तुलसी, आंवला, नीम, पुदीना,

शहद इत्यादि के योग से बनी 'आई मंत्रा'

आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आँखों में होने वाली समस्याओं जैसे आँखों की थकान,

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमशियल वेंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, युलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड्, जयपुर-302001 (cin:136911RJ1996PLC011381) परिशेष्टमा (देखे निस्सव (1) <u>वाच्या स्वता</u>) बहरेत बैंक तिरिदेश (प्रोस्पुल कॉमीर्यन्त केंद्र का वार्यिक्त अधिकारी सेते पुर 'निलीव आतियों का प्रतिमृतिकत्मा पूर्व पूर्णनर और प्रतिमृति तिव प्रवर्तन आधिय

	(2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपिठत नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सुवना पत्र निम्निसिखत तासिका के अनुसार कर तासिका में राशि 60 दिवस के मीतर चुकाने के लिये कहा गया था।						
ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख				
ऋण जाता सं. 19001060122745642 स्वामी मोटसं अगिए श्रीमती सपना चौचरी व श्री श्रीतर चौचरी सर श्री रावेश्याम चौचरी के विविक्त करताविकारी (ऋणी), शांतर चौचरी (स्व. कुणी व स्त. श्री रावेश्याम के विविक्त करताविकारी (ऋणी), शांतर विविक्त करताविकारी सह. ऋणी), सपना चौचरी (सह. ऋणी) व स्त. श्री रावेश्याम के विविक्त करताविकारी (सह. ऋणी)	15 मार्च 2022 र 4777253/- रु. सँतालीस काख सतहमद हजार दो सौ तिरेपन मात्र 15 मार्च 2022	स्मापी को सभी ऑपना आंग हिहायणी नैगरिहायणी मृत्ति, शिहिंग, इट्रम्बर एवं फिक्क्स स्मीति हिस्ता प्राप्त में प्राप्तक नीया बाढ़ी अस्सातः के पास, अरतेड्ड, चिन्तीग्रगढ़, ग्रजस्थान क्षेत्रस्थन 351.53 वर्गगब	10 जुलाई 2024				
ऋण खाता सं.: L9001060120574452 दिव्या टेम्पो सर्विस (ऋणी), प्रताप लाल (सह-ऋणी), प्रेमी बाई (सह-ऋणी), रतन लाल माली (सह-ऋणी), प्रताप भाई मोहन भाई माली (जमानतदार)	12 जुलाई 2022 र 840342/- रु. आठ लाख चालीस हजार तीन सौ बयालीस मात्र 12 जुलाई 2022	सम्पत्ति के सभी ऑपना आंग हिरायांगी गौराहायांगी पृत्ति, विशिष्टोंग, स्ट्रक्वर एवं फिक्क्य संभीष सिवार प्रदृश्य -ते 8. जुक रं 1. कि. संकल्प रं 7. गोराहियों के बाता, जीती पहेला तक्षातिल -देशाह, विकार-गाव्यासन्द, गाव्यासन्द केक्स्य 2.581.7 वर्ष प्रदेश, पूर्व : सामान्य पार्च, पृथिका : सामार्थिक श्री बातु वर्ष शे गान्य जी माली, जला : सम्पत्ति की मदन व नन्दा जी माली, दक्षिण : सम्पत्ति हीरा जी माली व भंवर जी माली	11 जुलाई 2024				
ऋण खाता सं:: L9001060118345623 संजय कुमार (ऋणी)	13 जुलाई 2021 र 521311/- रु. पॉच लाख इक्कीस हजार तीन सौ मात्र ग्यारह 07 जुलाई 2021	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैरारिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर पट्टा नं. 24, संकल्प नं1, गांव-खाकी, ग्राम व पोस्ट-विरामपुर, राहसील-तिजारा, विला-अलवर, राजस्थान ब्रेक्चल 1478.31 वर्ग फीट, पूर्व : रोड्, पश्चिम : ललित कुमार, उत्तर: रोड़, दक्षिण : भूप सिंह	10 जुलाई 2024				
ऋण खाता सं.: L9001070822017311 गिरधारी (ऋणी), पणू सिंह (सह-ऋणी), लक्ष्मीकांत (सह-ऋणी)	14 सितम्बर 2023 र 815320/- रु. आठ लाख पन्द्रह हजार तीन सौ बीस मात्र 12 सितम्बर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन-न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत पट्टा नं. 26, बाई नं. 3, गांव-तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान श्रेष्टक्य 2519 वर्ष फीट, पूर्व : गंगा का मकान, पश्चिम : जगदीश का मकान, उत्तर : रोइ, दक्षिण : विनोद	11 जुलाई 2024				
ऋग खाता सं.: 19001060127053994 विनोद ई-मित्र संस्टर (ऋणी), दिनेश कुमार (सह-ऋणी), विनोद (सह-ऋणी)	14 दिसम्बर 2023 5 25225/- रु. पाँच लाख बाईम हजार दो सी पैतीस मात्र 11 दिसम्बर 2023	()) अपनी के सभी जीएना जंग शिवाकों / गिरिवाकों / गिरिवाकों / गिरिवाकों / , रहकार पूर्व किवार सामग्री सिकार दूरारं - 48, कुन्त - 5, भा-करारे, जा स्वात्ती, तहसीन - नगर, जिला- भारतपुर, राजस्थात क्षेत्रकाल 8.33.3 वर्ष गां गा, यूर्व : गेड़, परिवास मुकेल का स्वात्त्र, उत्तर : पुलेक सावात्त्र, रहिला: गेड़ (2) स्वाती के सभी जीएना जो शिवाकों / गिरिवाकों पूर्वि, विशेष्ट स्वात्त्र में पूर्व / , रहकार पूर्व (2) स्वाती के सभी जीएना जी शिवाकों / गिरिवाकों पूर्व । विशेष्ट स्वात्त्र में अपनी । जिला- समाग्री स्वात्त्र प्रदर्श- संक्ष्म कर / जीना क्योरीं, जालुकी, तहसील-नगर, जिला- समाग्री, राजस्थात्र क्षेत्रकाल प्रतिक्रमा स्वाता	11 जुलाई 2024				
ऋण खाता सं: L9001060123885076 मुकेश जी (ऋणी), दिनेश जी (सह-ऋणी)	12 जनवरी 2024 र 268029/- रु. दो लाख अङ्गस्ट हजार उनतीस मात्र 10 जनवरी 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 14, मिसल नं. 08, बुक नं. 177, ग्राम चंचावन - मनोता कलां, पंचावत समिति-नगर, किलासराद्या, राजस्थान, क्रीकल ८८३३ वर्ष गंच, पूर्व: विकय का मकान, परिचम : रितराम का मकान, उत्तर : ईंग्बर का मकान, दक्षिण : आम रास्ता	11 जुलाई 2024				
ऋण खाता सं.: L9001060132145464 सुघड् (ऋणी), श्रीमती सुनीता (सह-ऋणी)	13 मार्च 2024 र 225372/- रु. दो लाख पच्चीस हजार तीन सौ बहत्तर मात्र 11 मार्च 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित पट्टा मं. 59, बुक मं. 269, खसरा मं. 341, गांव न्केल्र्री, जीपी-योनिजा, पोएस-नटब्हें, जिला-भरतपुर, राजस्थान, क्षेत्रक्थर 213.33 वर्षों गड़, पूर्व: कान हेया का मकान, पश्चिम : रोह, उसर, शेर सिंह का मकान, दक्षिण : साहब सिंह का मकान	11 जुलाई 2024				
ऋण खाता सं: L9001060114715691 शंकर लाल खटिक (ऋणी)	12 जनवरी 2023 र 342030/- रु. तीन लाख बयालीस हजार तीस मात्र 10 जनवरी 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्क्वर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित पदटा नं. 41, कुक नं. 680, ग्राम खटिक का खेड़ा, ग्राम पंवायत - लेसवाह, तह. मोलवाड़ा, राजस्थान, क्षेत्रफल नेश वर्ष फेट, पुर्व: आम रास्ता, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: सुवालाल का मकान, दक्षिण: रामप्रसाद खटिक का मकान	12 जुलाई 2024				
ऋण खाता सं:: L9001060120112938 राम करण सिंह रानावत (ऋणी)	15 दिसम्बर 2021 ₹ 414847/- रु. चार लाख चीदह हजार आठ साँ सँतालीस मात्र 14 दिसम्बर 2021	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्वर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित ग्राम बांसदा, पंचायत गुण्डली, तहसील व जिला भीलवाड़ा, राजस्थान श्रेत्रफल 215 वर्ग गज, पूर्व ः रास्ता, पश्चिमः स्वयं की भूमि, उत्तरः स्वयं का बाहा, दक्षिणः रास्ता	12 जुलाई 2024				

क्षिणार पास्ता अधिकार प्राप्ता होता होता से पिछला होने पर क्षिणों को जाता सामान्य वन को पहुद हुए। सूचना है का क्षेत्र के कार्योक्तास्वर्का ने अब्ज अधिपेयण की घारा 1 3 की उपचारा (4) तथा वर्णा प्राप्तिन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रस्त विकासों के जनुष्योग में जगरेलर तालिका में वर्णित हम्मारीच का क्षमा प्रशान कर तिया है। अधिकों का धामा प्रशिमुत जातिकारों के नियम के किस प्रशास समय के बहुत में की प्रशास (5) के अपचारा (6) के अवसों की और काकृष्ट किया जाता है। अधिकों की विजिदकार कार्य तर्शनाया एक्सा हमान्य प्रशास सम्मार्थ के हमा को ब्यावस्ता हमें की कार्यान विकास के जीत सम्मार्थ के जीत सम्मार्थ के कार्यान के जीत सम्मार्थ के की स्थान के कार्यान कार्यान के कार्यान

श्चाणया का व्याज्ञ एवं कुल मुगतान होने तक "एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि स्थानः राजस्थान दिनांकः 12-जुलाई–2024

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वि

Shree Cement श्री सीमेन्ट लिमिटेड

<mark>पंजीकृत कार्याल्यः</mark> बांग्ड नगर, व्यावर - 305901 (राज.) फोन: EPABX +91-1462-228101-6 | फेक्सः +91-1462-228117/119 | इगेंल्ट share@shreecement.com वेव साईट: www.shreecement.com | CIN: L26943RJ1979PLC001935

45वीं वार्षिक आमसभा नोटिस, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी तथा रिकार्ड तिथि

दद्वाश सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (45वीं ए.जी.एम.) नोटिस में दिये गये व्यापार वे . मुंबंध में कंपनी के सदस्यों के लिए कम्पनी के पंजीकत कार्यालय बांगड नगर, ब्यावर - 305901, राजस्थान में ''रंगमंच ओडिटोरियम" में सबह 11:30 बजे ("IST") मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को आयोजित की जायेगी।

अविद्योदिस्य" में सुख्त 11:30 वर्ष ('IST') मंगलबात, 06 असल, 2024 को आवीर्वत की वायेगी।
45वीं वार्षिक आय बैठक को सुख्ता, विशित्त वर्ष 2023-24 को एसंकृत वार्षिक रिपोर्ट तथा उत्पादेखाँत पर्यो इलेक्ट्रोनिक माध्यम के
वारिय उत्त सत्यां को भेज दो गई हिंग्लर्क है -मेल पत्ते कम्पानी के आदार्थ। प्रिचानिक्टर साम्प्रामियों के पास पर्योक्त्र है, उन्हें खेड कर
क्रितानों अभीतिक प्रति के लिए अनुपोध नहीं क्रिका है। उत्त नमी सरस्यों को विलक्ते हैं-मेल पत्ते पत्ते प्रति के भीतिक प्रति
के अनुमानित माध्यम से उन्हें हम्म पत्ति कृत के पत्ते कि स्वत्य हमा विश्व प्रदेश कि स्वत्य होत्ति कर प्रदेश कि सुचना, विनिव कर 2023-24 को
एस्कृत वार्षिक रिपोर तथा उत्तरिस्ति पर्यो कम्पनी को बेससाइट https://www.shreecement.com/uploads/investors/Annual
Report 2023 24.94 तथा सत्य नालल सिक्स्यून्टियों विरायोद्ध रिपोर्टर ('NSDL') को बेससाइट https://www.wordin.rsdl.com
पत्ति उत्तरिस्त स्वत्य स्वत्य हम्म स्वत्य हम्म स्वत्य स्वत्य

कमनी अधिनियम, 2013 को थारा 108 सपठित कंपनी (प्रेंबधन एवं संचालन) नियम, 2014 तथा सेची (लिस्टेंग दायित्व और प्रकटोकरण की आवश्यकता) नियम, 2015 के निर्मियम 4 के अनुसार कंपनी के स्टस्यों को 45वीं ए.की.एम. नीटिस में प्रदत सभी मुख्यों को NSDL के द्वारा प्रदान को यहिंग सिन्धे ट्रें- लोटिंग सुविधा (ए.जी.एम. के स्थान के अलवा अन्य अगह से हरेक्ट्रोनिक वोटिंग सिट्टम) से सत्तान करने की सुविधा प्रपान से गई हैं।

सदस्यों कि बोर्टिंग पात्रता का निर्धारण (रिमोर्ट इंप्बोर्टिंग के माध्यम से या सभा में मतरान पत्रों के माध्यम से मतरान के छिए) मंगल्खा 30 जुलाई, 2024 (कट-ऑफ-डेट) कंपनी की प्रवत इंक्विटी शेयर पुंजी के शेयरों के अनुपात के अनुसार किया जायेगा।

रिमोद ई-बोरिंटा की अवधि मुक्कवार, 2 अगस्त, 2024 को प्रात: 9 बचे (IST) शुरू होगी और सोमवार, 5 अगस्त 2024 को सांय 5,00 बजे (IST) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रोनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इस दिनांक तथा समय अवधि के पक्षात NSDL द्वारा ई-बोरिंटग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मतरान पत्र के माध्यम से मतरान की सुविधा 45वीं ए.जी.एम. स्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी। ए.जी.एम. में भाग ठेने वाले सदस्य जिन्होंने सिधा ई-जीटिंग के माध्यम से माधीभ्वर का प्रयोग नहीं किया है, से मतरान पत्र के माध्यम से ए.जी.एम. में आपने माधीभ्वर का प्रयोग कर संकीं होने सदस्यों में ए.जी.एम. से पार्टि निर्मेट -बीटेंग हुझ उपले मोधिकर का प्रयोग कर स्विधा में ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं। परनु वह फिर से मताधिकर का प्रयोग नहीं कर सकते या उसे बदल नहीं सकते।

कोई भी व्यक्तिजो मिटिंग के नोटिस के प्रेपण के पक्षात तेयर का अधिग्रहण करके सदस्य बनता है, तथा कट—आफ डेट पर तेयर रखता है वह लगिन आई.डी. और पासर्व हंश्योत(कुलाडांLo.ln पर अनुपेध भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। यूनर आई.डी. व पासर्व हाम करने की विस्तुन वोद्यान मिटिंग के नोटिस के साथ उपलब्ध करायों है है के अध्यान के वेशस्ताट्ट एंस SDLS में के स्वस्ताट पर प्राप्त कर स्वार्ट पर SDLS में क्षान्य टूंप परिशा के प्राप्त कर स्वार्ट पर अप्ता में का स्वार्ट में क

व भारतक स सर स्वर का है। पिटाई - बीटिंग में संबंधित दिवरण के लिए 45वीं ए. बी. एम. का नीटिस रेखें। रिमोट ई- बोटिंग में संबंधित प्रशो के इस प्राप्त करने के लिए, कृपया www.evoling.nsdl.com एवं डाउनलेड सेक्शन में उपलब्ध frequently asked questions (FAQs) तथा evoling manual देखें या टोल प्रमें ने: 1800-1820-990 या evoling@insdl.coi. पाप आयाए करें। गिराई ई-वॉटिंग से संबंधित किसी अस्म कर विश्वस्वत के लिए NSO. पर कृपया मीलिया किसी तथा, विशेषित मैंने अपिटा मी नीवर पर प्रति वाई कर बन्दें कमला मिल्स केंग्रवंड, सेनापति बागव मार्ग, लोक्स परल, सुम्बई — 400013, ई-मेल evoling@insdl.com दु- 022-48867000 पर

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाग्र निर्नाय वर्ष के लिए, ऑतंम लगांश का पुगतान जो को सस्त्यों के मंत्रूरी के अभीन है, के लिए संस्त्यों की पात्रता निर्मारित करने के लिए मंगलवार, 23 जुलई, 2024 को 'रिकार्ड तिथि' के रूप में निर्मारित किया है, यदि 45वीं पंपापम में हमें मंत्रूरी मिर जाती हो जो देशा अनुसमित अतिमा लगांगर, यदि चार्षिक आम बैठक में हसे मंत्रूरी मिरल जाती है, तो बुधवार, 7 अगस्त, 2024 को या उसके बाद पुगतान किया जारणा

(i) जिनके नाम Beneficial Owners के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंटल डिपॉजिटर सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) द्वारा प्रस्तुत Beneficial Owners की सूचि में मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को दर्शाए गरे

(ii) जिनके नाम कंपनी या उसके एजिस्ट्राए और शेषर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") viz. लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिन्टेड के पास इस्ते वैष Transmission या Transposition अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रॉकस्टर में मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को सदस्य के रूप में दिखाई रेते हैं।

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 12 जुलाई, 2024

